

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक- अगस्त 31,2021

***यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग*-** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 142 वाहनों का चालान किया गया व 01 वाहन से 1000/- का समन शुल्क वसूल किया गया।

***शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भादवि मे 10 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सोनू पुत्र बुद्धिराम यादव सा0 बड़का टोला हरदीडाली थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 35 बोरी युरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/21, धारा-11 कस्टम अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना घुघली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गुड्डू पुत्र स्व0 छोटेलाल पता पाताल कुऊ थाना घुघली जनपद महराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-187/21, धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त विजेग पुत्र ईश्वरचन्द पात सेवतरी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-111/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त उत्तम पुत्र जवाहिर चौहान नि0 खैरहवा जंगल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15शीशी कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-84/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग व अभियुक्त संतोष पुत्र सुखराम नि0 बेलहिया टोला करमहवा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-85/21, धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र सुखल नि0 प्रतापपुर थाना बेलीडोरी नवलपरासी राष्ट्र नेपाल के कब्जे से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 346/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गुण्डा अधिनियम मे की गयी कार्यवाही *-

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही – अभियुक्तगण 1.सोनू प्रसाद पुत्र स्व0 नरेश 2.रामबदन पुत्र रामदरश नि0गण ईटहिया थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज 3. अवधेश यादव पुत्र विक्रम सा0 लक्ष्मीपुर खुर्द थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/2021 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-20 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 30/31-08-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल-24 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।